



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1966]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2011/आश्विन 21, 1933

No. 1966]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2011/ASVINA 21, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2011

का.आ. 2358(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उप-धारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 82(अ), तारीख 4 फरवरी, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) "I. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" शीर्ष के अंतर्गत,—

(i) "सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली-110060" से संबंधित क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2. सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली-110060

- |  |          |
|--|----------|
| (1) डॉ. वी. के. कपूर   | —अध्यक्ष |
| अपर निदेशक, चिकित्सा, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली।  |          |
| (2) डॉ. सुनील कुमार जैन  | —सदस्य   |
| ज्येष्ठ परामर्शी, आयुर्विज्ञान विभाग, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली।  |          |
| (3) डॉ. एच. एन. अग्रवाल  | —सदस्य   |
| ज्येष्ठ परामर्शी, तंत्रिका शल्यचिकित्सा विभाग, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली।   |          |
| (4) डॉ. बी. के. मैनी   | —सदस्य   |
| सेवानिवृत्त प्रोफेसर, शरीर विज्ञान, मेडिकल कॉलेज, रोहतक।   |          |
| (5) श्री बी. एल. आनंद  | —सदस्य   |
| भूतपूर्व सदस्य/जुरी सदस्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 के अधीन राज्य आयोग,<br>भूतपूर्व कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या उप-खण्ड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, दिल्ली। |          |

- (6) सचिव (स्वास्थ्य), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार, 9वां तल, दिल्ली सचिवालय, —सदस्य  
आईपी इस्टेट, नई दिल्ली-2 का नामनिर्देशिती ।
- (7) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार, अस्पताल सेल, एफ-17, —सदस्य  
कड़कड़डूमा, दिल्ली-32 का नामनिर्देशिती ।

(ii) क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रतिष्ठियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“12 प्राइमस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।

- (1) डॉ. (प्रोफेसर) सूर्य भान, निदेशक, अस्थि और सन्धि प्रतिस्थापन विभाग । —अध्यक्ष
- (2) डॉ. योगेश गौतम, ज्येष्ठ परामर्शी, मिनिमल एक्सैस और बेरिआट्रिक शल्यचिकित्सा विभाग । —सदस्य
- (3) डॉ. अरुण भनोट, निदेशक, अल्पतम प्रसार मेरुडंड शल्यचिकित्सा विभाग । —सदस्य
- (4) श्री के. एम. सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त), न्यू मोती बाग, रिंग रोड, नई दिल्ली । —सदस्य
- (5) श्री देवेन्द्र वर्मा, बीएससी, एलएलबी, अधिवक्ता । —सदस्य
- (6) प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार का नामनिर्देशिती । —सदस्य
- (7) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार का नामनिर्देशिती ।”; —सदस्य

(ख) “III चंडीगढ़” शीर्ष के अधीन “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़” उपशीर्ष को क्रम संख्यांक 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपशीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“2 चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ।

- (1) जिला मजिस्ट्रेट (सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं का नामनिर्देशिती) संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ । —अध्यक्ष
- (2) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या उसका नामनिर्देशिती । —सदस्य
- (3) चिकित्सा अधीक्षक-सह-संयुक्त प्रधान चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र । —सदस्य
- (4) डॉ. राजीव सरवाल, एमबीबीएस, एमडी (भेषज) डीएम (आंत्ररोग विज्ञान), चंडीगढ़ । —सदस्य
- (5) डॉ. विनिंदर सचदेवा, एमबीबीएस एमडी (हृदय रोग विभाग), चंडीगढ़ । —सदस्य
- (6) हरजिंदर कौर, पूर्व महापौर, चंडीगढ़ । —सदस्य
- (7) डॉ. जोरा सिंह, अध्यक्ष, आईएमए, चंडीगढ़ । —सदस्य”;

(ग) “III चंडीगढ़” शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“IV. दमण और दीव

1. जिला दमण

- (1) सचिव (स्वास्थ्य), दमण और दीव । —अध्यक्ष
- (2) कलक्टर, दमण । —सदस्य
- (3) निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, दमण । —सदस्य
- (4) उप-निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, दमण । —सदस्य
- (5) चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी अस्पताल, दमण । —सदस्य
- (6) श्री ओरलैण्डो मिरांडा, पूर्व-लोक अभियोजक, दमण । —सदस्य
- (7) श्रैसीअम्मा मैथ्यू, पूर्व वार्ड सिस्टर, सरकारी अस्पताल, दमण । —सदस्य

## 2. जिला दीव

- (1) सचिव (स्वास्थ्य), दमण और दीव । —अध्यक्ष
- (2) कलक्टर, दीव । —सदस्य
- (3) निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, दमण और दीव । —सदस्य
- (4) स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीव । —सदस्य
- (5) ज्येष्ठ शल्य चिकित्सक, सरकारी अस्पताल, दीव । —सदस्य
- (6) डा. पुष्पासेन बी. कपाड़िया, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संगम, दीव और पूर्व चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दीव । —सदस्य
- (7) कुमारी हेमलता गोकुल, अधिवक्ता, दीव । —सदस्य

## V. दादरा और नागर हवेली ।

- (1) सचिव (स्वास्थ्य), दादरा और नागर हवेली, सिलवासा । —अध्यक्ष
- (2) कलक्टर, दादरा और नागर हवेली, सिलवासा । —सदस्य
- (3) मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, दादरा और नागर हवेली, सिलवासा । —सदस्य
- (4) चिकित्सा अधीक्षक, दादरा और नागर हवेली, सिलवासा । —सदस्य
- (5) श्री जवाहर देसाई, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक । —सदस्य
- (6) लैफ्टीनेंट कर्नल, पी. मीरा (सेवानिवृत्त), प्रधानाचार्य, नर्सिंग विद्यालय, सिलवासा । —सदस्य

[फा. सं. एस-12011/9/2005-एमएस]

संजय पंत, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना का.आ. 82(अ) तारीख 4 फरवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्व संशोधन सं. का.आ. 127(अ) तारीख 15 फरवरी, 1996; का.आ. 227(अ) तारीख 9 फरवरी, 1988; का.आ. 1420 तारीख 17 मई, 2003; का.आ. 2858 तारीख 29 जुलाई, 2006; का.आ. 4292 तारीख 11 नवम्बर, 2006; का.आ. 3154 तारीख 27 अक्टूबर, 1997 और का.आ. 919(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2008; का.आ. 2195(अ) तारीख 28 अगस्त, 2009; का.आ. 2527(अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2009; का.आ. 74 तारीख 22 अप्रैल, 2010; का.आ. 3056(अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2010; का.आ. 22(अ) तारीख 7 जनवरी, 2011; का.आ. 477(अ) तारीख 4 मार्च, 2011 और का.आ. 1112(अ) तारीख 19 मई, 2011 द्वारा किए गए ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2011

S.O. 2358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of Section 9 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, number S.O. 82(E), dated the 4th February, 1995, namely :—

In the said notification,—

(a) under the heading I National Capital Territory of Delhi,—

- (i) for serial number 2 relating to Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi-110060 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

“2. Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi-110060

- (1) Dr. V.K. Kapur —Chairman  
Additional Director Medical, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi.
- (2) Dr. Sunil Kumar Jain —Member  
Senior Consultant, Department of Medicine, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi.

- (3) Dr. H. N. Agarwal, —Member  
Senior Consultant, Head of Department of Neuro-Surgery, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi.
- (4) Dr. B.K. Maini, —Member  
Retired Professor of Physiology, Medical College, Rohtak.
- (5) Mr. B.L. Anand, —Member  
Ex-Member/Juror, State Commission under Consumer Protection Act, 1986, Ex-Collector, Additional District Magistrate, Sub Divisional Magistrate, Judicial Magistrate, Delhi.
- (6) Nominee of the Secretary (Health), Government of National Capital Territory of Delhi, —Member  
9th Floor, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi-2.
- (7) Nominee of Director, Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi, —Member";  
Hospital Cell, F-17, Karkardooma, Delhi-32.
- (ii) after serial number 11 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—
- "12. Primus Super Speciality Hospital, Chanakyapuri, New Delhi.
- (1) Dr. (Professor) Surya Bhan, Director, Department of Orthopedics and Joint Replacement. —Chairman
- (2) Dr. Yogesh Gautam, Senior Consultant, Department of Minimal Access and bariatric surgery. —Member
- (3) Dr. Arun Bhanot, Director, Department of Minimally Invasive Spine Surgery —Member
- (4) Mr. K.M. Singh, IPS (Retd.), New Moti Bagh, Ring Road, New Delhi. —Member
- (5) Sh. Davinder Verma B.Sc., LLB, Advocate. —Member
- (6) Nominee of Principal Secretary (H&FW), Government of National Capital Territory of Delhi. —Member
- (7) Nominee of Director, Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi. —Member";
- (b) under the heading "III Chandigarh," the sub-heading "Post Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh" shall be numbered as serial number 1 and after the sub-heading as so numbered and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—
- "2 Union Territory of Chandigarh.
- (1) District Magistrate (nominee of Secretary Health Services), Union Territory, Chandigarh. —Chairman
- (2) Director, Health Services or his nominee. —Member
- (3) Medical Superintendent - cum - Joint Principal Medical Officer, Health Department, Union Territory, Chandigarh. —Member
- (4) Dr. Rajeev Sarwal MBBS MD (Medicine) DM (Gastroenterology), Chandigarh. —Member
- (5) Dr. Vinninder Sachdeva, MBBS MD (Medicine) (Dip Cardiology), Chandigarh. —Member
- (6) Harjinder Kaur Ex-Mayor, Chandigarh —Member
- (7) Dr. Zora Singh, President IMA, Chandigarh. —Member";
- (c) after the heading "III Chandigarh," and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be added, namely :—
- "IV. Daman and Diu.

**1. Daman District**

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) Secretary (Health), Daman and Diu.                             | —Chairman |
| (2) Collector, Daman.  | —Member   |
| (3) Director, Medical and Health Services, Daman.                  | —Member   |
| (4) Deputy Director, Medical and Health Services, Daman.           | —Member   |
| (5) Medical Superintendent, Government Hospital, Daman.            | —Member   |
| (6) Mr. Orlando Miranda, Ex-Public Prosecutor, Daman.              | —Member   |
| (7) Thresiamma Mathew, Ex-Ward Sister, Government Hospital, Daman. | —Member   |

**2. Diu District**

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) Secretary (Health), Daman and Diu.   | —Chairman |
| (2) Collector, Diu.  | —Member   |
| (3) Director, Medical and Health Services, Daman & Diu.  | —Member   |
| (4) Health Officer, Community Health Centre, Diu.  | —Member   |
| (5) Senior Surgeon, Government Hospital, Diu.  | —Member   |
| (6) Dr. Pushpasen B. Kapadia, President, Indian Medical Association, Diu and Ex Medical Officer, Primary Health Centre, Diu. | —Member   |
| (7) Kumari Hemlata Gokul, Advocate, Diu.   | —Member   |

**V. Dadra and Nagar Haveli**

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) Secretary (Health), Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.                | —Chairman |
| (2) Collector, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.                         | —Member   |
| (3) Chief Medical Officer, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.             | —Member   |
| (4) Medical Superintendent, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa.            | —Member   |
| (5) Mr. Jawahar Desai, Senior Advocate Additional Public Prosecutor.     | —Member   |
| (6) Lt. Colonel P. Meera (Retd.), Principal, School of Nursing, Silvassa | —Member"  |

[F.No. S-12011/9/2005-MS]

SANJAY PANT, Under Secy.

**Note :—**The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 82(E), dated the 4th February, 1995 and subsequently was amended *vide* numbers S.O. 127(E), dated the 15th February, 1996; S.O. 227(E), dated the 9th February, 1998; S.O. 1420, dated the 17th May, 2003; S.O. 2858, dated the 29th July, 2006; S.O. 4292, dated the 11th November, 2006; S.O. 3154, dated the 27th October, 1997 and S.O. 919(E), dated the 23rd April, 2008; S.O. 2195(E), dated the 28th August, 2009; S.O. 2527(E), dated the 5th October, 2009; S.O. 74, dated the 22nd April, 2010; S.O. 3056(E), dated the 28th December, 2010; S.O. 22(E), dated the 7th January, 2011; S.O. 477 (E), dated the 4th March, 2011 and S.O. 1112(E), dated the 19th May, 2011.

3213 40/11-2